

EASTERN SUGAR & INDUSTRIES LIMITED

CIN: L15421BR1964PLC006630

Regd. Off: PO. Hanuman Sugar Mills, Motihari, P.S.-Motihari, East Champaran, Bihar-845401

EMAIL ID: info@easternsugar.in

May 31, 2024

To,

The Manager – CRD,

BSE Limited.

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai – 400 001

Scrip Code: 507528

The Manager – Listing Department

National Stock Exchange of India Limited,

Exchange Plaza”, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East),

Mumbai – 400 051

Symbol: EASTSUGIND

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Financial Results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2024 published in the following newspaper on Friday, May 31, 2024 for the meeting held on May 29, 2024:

1. Sanmarg
2. Morning India

This is for your information and record.

Thanking You,

FOR EASTERN SUGAR & INDUSTRIES LIMITED

Siddharth Gogia
Director

Pioneering spacetech : First rocket launched from India's private launchpad



NEW DELHI : Chennai-based private space technology startup Agnikul Cosmos successfully test launched their maiden rocket on Thursday, from India's first and only private launchpad within the Satish Dhawan Space Centre (SDSC) SHAR at Sriharikota in Andhra Pradesh.

The liftoff took place at 7.15 am today.

The Agniabaan SORTeD (SubOrbital Technological Demonstrator), holds the unique distinction of being powered by the world's first 3D printed engine, Agnilet, that has been designed and built in India.

Pawan K Goenka, Chairman of Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPAcE) of the central government's Department of Space termed it a historic moment for the country's space sector. Taking to social media platform X he posted, "Elated at the successful launch of Agniabaan SORTeD by AgnikulCosmos," and said the "achievement showcases

brilliance of our young innovators."

ISRO also congratulated Agnikul Cosmos for the "major milestone."

"Congratulations, @AgnikulCosmos, for the successful launch of the Agniabaan SORTeD-01 mission from their launch pad. A major milestone as the first-ever controlled flight of a semi-cryogenic liquid engine realised through additive manufacturing," ISRO posted on X.

The rocket is powered by a semi-cryogenic engine that uses commercially available aviation turbine fuel kerosene and liquid oxygen.

Incubated at IIT-Madras in the year 2017, the startup in a statement prior to the launch said that unlike traditional sounding rockets that launch from guide rails, Agniabaan SORTeD, is designed to lift off vertically to follow a predetermined trajectory while performing a precisely orchestrated set of manoeuvres during flight.

Today's development

comes as the fifth attempt by the company, which had called off a test flight of its first rocket on Tuesday, a mere few seconds before its launch. Tuesday's cancellation marked the fourth such cancellation in the last three months.

In a post on X, Agnikul Cosmos said they were "humbled" to announce the successful completion of their first flight "Mission 01 of Agniabaan SORTeD."

"All the mission objectives of this controlled vertical ascent flight were met and performance was nominal," the company said.

They also thanked IN-SPAcE, ISRO and IIT Madras for "helping prove that a private player can design and fly original space tech hardware in India."

Union Minister Rajeev Chandrasekhar also extended his congratulations to Agnikul Cosmos for successfully completing its first launch.

"Congratulations @AgnikulCosmos @itmadras Agnikul successfully complet-

ed its first launch from Agnikul's own & India's only private Launchpad within SDSC-SHAR. Besides being the world's first flight with a single piece 3D printed rocket engine, this controlled flight is also India's first flight with a semi cryogenic engine. The vehicle was completely designed in-house in India and assembled at Agnikul's facilities within IIT Madras," Chandrasekhar posted on X.

The engine test is powered by Agnikul's own data acquisition systems and flight computers, that were 100 per cent designed in-house. Moreover, the test also proves the capability of the entire avionics chain of the SORTeD vehicle to control the entire propulsion system of the vehicle.

According to the start up the customisable two-stage vehicle is capable of taking up to 300 kg to orbits around 700 km above the earth.

Agniabaan can access both low and high inclination orbits and is completely mobile - designed for access-

ing more than 10 launch ports.

Agniabaan which is Sanskrit word that translates to mean "an arrow of fire" is a customizable vehicle, according to the startup, which signed an agreement with Indian Space Research Organisation (ISRO).

In 2021 it successfully fired the single piece 3D printed engine Agnilet and raised USD 11 million series A round from institutional and angel investors. In 2022 it signed an agreement with IN-SPAcE and inaugurated its launchpad and mission control room in Sriharikota. The company received a Flight Termination System from ISRO, marking the first time a PSLV package was delivered for a private vehicle.

ISRO said that establishment of the private launchpad designed and operated by Agnikul marks a significant step in opening the Indian space sector to private players.

The facility, inaugurated on November 25, 2022 by S. Somanath, Chairman, ISRO and Secretary, Department of Space (DOS) comprises a launchpad and a mission control centre. The system is compliant to support liquid stage-controlled launches, monitor key flight safety parameters by ISRO's range operations teams during launches and share the data with ISRO's Mission Control Centre. During the inauguration Somanath had said that India can travel to space from one more space platform.

Founded in 2017 by Srinath Ravichandran, Moin SPM and SR Chakravarthy a professor from IIT Madras, Agnikul aims to make space accessible and affordable and aspires to support Prime Minister Narendra Modi's vision of enabling building of Aatmanirbhar Bharat.

The country's first privately developed rocket Vikram-S was launched in the year 2002 by private company Skyroot Aerospace.

"Delhi must receive its fair share of water:" AAP leader Atishi amid water crisis in several parts of National capital

NEW DELHI : Amid the water crises in several parts of the National capital on Thursday AAP leader and Delhi Water Minister Atishi said that Delhi should get its "fair share of water". She further claimed that the arbitrary action of the Haryana government has caused problems in several parts of the state.

"We have written a letter to the Haryana government, and today we will also reach out to the central government so that Delhi receives its fair share of water. It is the shortage of water that is causing turmoil in various parts of Delhi due to Haryana's arbitrary actions. If there is no raw water, how will water production happen?" Atishi said during her visit to Wazirabad Water Treatment Plant for inspection.

"Due to Haryana's arbitrariness, the capital of the country cannot be plunged into a water crisis," she added.

Meanwhile, Atishi inspected the Wazirabad Water Treatment Plant, where she witnessed firsthand the repercussions of decreasing



water levels. Atishi underscored the challenges faced by treatment plants in meeting the city's demand amidst reduced supply from Haryana. "Delhi is highly dependent on the Yamuna River for its entire water supply. The water that comes to Delhi in the Yamuna River is what is left by Haryana. Today, we are at the Wazirabad pond, where the water level should be at 674 feet. Currently, the water level is 3 feet 5 inches lower. Today, the water level of the Yamuna is at 370.3 feet, while on the same day last year, it was at 374.5 feet," Atishi said.

"This water from the

Yamuna is what supplies water to your Wazirabad water treatment plant, Chandrawal treatment plant, and Okhla water treatment plant. When the water supply decreases, when the water level decreases in the treatment plant, when less water comes from Haryana, how will the water treatment plant produce water?" she added. Responding to opposition allegations that the AAP government did not formulate a summer plan and implemented water rationing, AAP leader Atishi clarified, "Water rationing occurs when there is an increase in consumption that cannot be met by our existing water supply. Therefore, we resort to rationing. However, the effectiveness of any action plan also depends on the water supply remaining at normal levels. Water treatment plants can't produce water, they can only treat it."

On Tuesday, Delhi minister Atishi accused the Haryana government of not releasing Delhi's water share even after "so many talks." She had further asserted.

"Goal of BJP-BJD partnership is to steal wealth, mines, and properties of people in Odisha:" Rahul Gandhi

BALASORE : Congress leader Rahul Gandhi claimed on Thursday that BJP-BJD are working as an alliance and alleged that the partnership is focused on looting the wealth, mines, and properties of Odisha.

Speaking at a public meeting in Balasore, Gandhi questioned the integrity of BJD leader and Odisha Chief Minister Naveen Patnaik, "why haven't cases been filed against the CM here, Naveen Babu, if he truly fights against the BJP? Why wasn't his home taken? Why wasn't his membership revoked? Why wasn't he interrogated?"

"All this hasn't happened because Naveen Patnaik from BJD works for the BJP, both are the same, their partnership is ongoing. And it's clear that the goal of this partnership is to steal the wealth, mines, and properties of the people of Odisha and to make billions," Gandhi added. Drawing a contrast with his own experiences, Gandhi highlighted the numerous legal challenges he has faced due to his opposition to the BJP.

"I fight against the BJP and they have filed 24 cases against me that include defamation and criminal cases. They took away my Lok Sabha membership



and sentenced me to a two-year jail term. The ED interrogated me for 50 hours. They took my home. When they took my home, I gave them the keys and said to them, 'I don't want this government house of yours,' Gandhi said. "I have millions of homes in my India. My home is in the hearts of the people of Odisha. The hearts of the people of other states are my home, I don't need your home, take it away," he added.

Gandhi emphasized the ideological battle between the BJP and the INDIA alliance, which he asserts is committed

to protecting the Indian Constitution.

"This is the first election where one side wants to end the Constitution and the other side wants to save it. The INDIA alliance is saying that no matter what happens, we will protect the Constitution, we will not let Ambedkar's Constitution be revoked or destroyed. On the other hand, BJP people and RSS people say that if their government is formed, they will tear up Ambedkar's Constitution." "I want to tell Narendra Modi and the RSS people that you can think whatever you want, but there is no power in this world that can destroy India's Constitution," he added. On PM Modi's recent remark on Mahatma Gandhi, Congress leader Rahul Gandhi says, "Martin Luther King Jr., Nelson Mandela and all the children of India are inspired by Mahatma Gandhi. So, there is no need to comment anything on that. Perhaps, his entire worldview is based on 'Shakha's' (RSS) view."

Earlier on May 16, PM Modi said, "These (Congress) people climb the stairs of power taking the name of Mahatma Gandhi, but they don't remember the words of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi.

ED attaches Rs 291.18 Crore assets of International Amusement Limited in Noida, Delhi, Rajasthan

NEW DELHI : The Enforcement Directorate has attached immovable properties worth Rs 291.18 crore belonging to International Amusement Limited, the holding company of IRAL, the agency said on Thursday.

The assets include unsold commercial space of 3,93,737.28 square feet at the Great India Place Mall in Noida, commercial space of 45,966 square feet held in the name of Adventure Island Limited in Delhi's Rohini, and leasehold rights over land of 218 acres at Daulatpur village in Jaipur held in the name of International Amusement and Infrastructure Limited. The action was taken under the provisions.

PHYSICAL POSSESSION NOTICE

ICICI Bank Branch Office: ICICI Bank Ltd, Landmark Building, 4th Floor, 228A, AJC Bose Road, Kolkata 700020
CIN No: L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Physical Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	Krishna Kumar/ Indira Dew/ Indrapuri Road No. 9 Ratu Road Near Shiv Mandir Jharkhand LBDHB00005966111/ LBDHB00006079439	Flat C, Ground Floor, Krishna Apartment, Phase- 2 old Khata No. 06, old Plot No. 313, 314, 315, 316, 317, New Khata No. 70, New Plot No. 507, 508 and 509, Mouza Narayanpur (Piprabera), P.S. Saraidhela, Chawki, Sadar Registry office and District - Ranchi 834005/ Admeasuring an area of Flat Having Super Built- Up area of 1300 Sq. Ft./ Date of Physical Possession 27.05.2024	29/09/2023 Rs. 34,23,081/-	Begusarai

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : May 31, 2024
Place : begusarai
Authorized Officer : ICICI Bank Limited

EASTERN SUGAR & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L24205BR1964PLC006630
PO. Hanuman Sugar Mills, Motihari, P.S.- Motihari, East Champaran, Bihar, India - 854501
Ph No. 9711998548; E-mail: info@easternsugar.in

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2024

(Rs. in Lakhs except EPS)

Particulars	Results for the Quarters Ended			Year to date figures for the year ended		Previous Year ended
	31-Mar-24	31-Dec-23	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	
	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	
Total Income from operations (net)	1.11	0.00	0.00	1.11	0.00	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items)	-7.21	0.00	0.00	-7.21	0.00	
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, (after) exceptional and / or extraordinary items)	-5,273.87	0.00	0.00	-5,273.87	0.00	
Net Profit / (Loss) for the period (after tax, exceptional and / or extraordinary items)	-5,273.87	0.00	0.00	-5,273.87	0.00	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-5,273.87	0.00	0.00	-5,273.87	0.00	
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1 per share)	604.84	604.84	3,390.01	604.84	3,390.01	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet date	-313.40	-313.40	1,943.09	-313.40	1,943.09	
Basic and diluted earning per share (EPS)	-8.72	0.00	0.00	-8.72	0.00	

Notes :-
The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results for the quarter/twelve month ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and its extracts are available on the Stock Exchanges websites i.e. BSE Ltd. (www.bseindia.com), and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and website of the Company i.e. www.easternsugar.in

For Eastern Sugar & Industries Limited
Sidharth Gogia
Director
DIN: 07202627

Date : 30-05-2024
Place : Delhi

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD.
CIN: U67100TZ2014PTC020363
Corporate Office: Kohinoor Square, 47th Floor, N.C. Kelkar Marg, R.G. Gadkari Chowk, Dadar (West), Mumbai - 400028
Email: rajesh.jumani@omkaraarc.com/zuber.khan@omkaraarc.com. Authorised Officer M no.: +918657969231 / +918657969233

[Appendix - IV-A]
[See proviso to rule 8 (6) r/w 9(1)]
PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("SARFAESI Act") read with proviso to Rule 8 (6) r/w 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd. Further, Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd (OARPL) (acting in its capacity as Trustee of Omkara PS 30/2021-22 Trust) has acquired entire outstanding debts of the below accounts vide Assignment Agreement dated 30.09.2021 from Indusind Bank Ltd (Assignor Bank) along with underlying security from assignor bank. Accordingly, OARPL has stepped into the shoes of assignor bank and empowered to recover the dues and enforce the security. The Authorized Officer of OARPL took handover of the physical possession of the below mentioned secured property from the Borrower/Mortgagor/Co-Borrower. The Authorized Officer of OARPL hereby intends to sell the below mentioned secured properties for recovery of dues and hence the tenders/bids are invited in sealed cover for the purchase of the secured properties. The properties shall be sold in exercise of rights and powers under the provisions of Sections 13 (2) and 13 (4) of SARFAESI Act; on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and "Without recourse Basis" for recovery of amount shown below in respective column due to OARPL as Secured Creditor from respective Borrower and Co-Borrower(s) shown below. Details of the Borrower(s)/Guarantors/Mortgagors, Securities, Owner, Outstanding Dues, Date of Demand Notice sent under Section 13(2), Possession Date, Reserve Price, Bid Increment Amount, Earnest Money Deposit (EMD), Date & Time of Inspection is given as under:

Sr. No.	Name of Borrower(s) / Guarantors / Mortgagors	Details of the Secured Asset	Owner of the property	Outstanding Dues as on 31.03.2024 (IN INR)	Demand Notice Date	Physical possession Date	Reserve Price (IN INR)	Bid Increment Amount (IN INR)	EMD (IN INR)	Date & Time of Inspection
1.	M/S Utopia Distribution and Sales Private Limited Prabhat Ranjan Priya Ranjan Sushila Mishra Rajani Ranjan	Property 1: A Pucca constructed office having an Area of 642.25 Sq. Ft. at Fourth Floor of the Building known as N.P. Centre situated at Mohalla Dak Bunglow Road, P.O. G.P.O. - Patna, P.S. Kotwali, District - Patna, comprised in Thana No. 137, Municipal Survey Plot No. 137 Municipal Survey No. 18, Holding No. 910, Circle No. 6, bearing Office No. 410 for the sake of easy identification and bounded as follows:- On the North: Dead End of the building. On the South: Corridor. On the East: Corridor. On the West: Corridor. **** The details of the property are more specifically described in the Deed No. 9373 dated 18.05.2007 in the name of Mr. Prabhat Ranjan. Property 2: A Shop having an Area of 300 Sq. Ft. in the Basement of the Building known as N.P. Centre situated at Mohalla Dak Bunglow Road, P.O. G.P.O. - Patna, P.S. Kotwali, District - Patna, comprised in Thana No. 137, Municipal Survey Plot No. 100 (part), Ward No. 02, Circle No. 6, bearing Office No. L.C./ 58 for the sake of easy identification and bounded as follows:- On the North: Dead End of the building. On the South: Corridor. On the East: Shop No. L.C. /5/A. On the West: Shop No. L.C. / 6. **** The details of the property are more specifically described in the Deed No. 3900 dated 08.07.1996 in the name of Mr. Priya Ranjan.	Property 1: Prabhat Ranjan Property 2: Priya Ranjan	Rs. 2,46,94,384.44 (Rupees Two Crores Forty Six Lakhs Ninety Four Thousand Three Hundred Eighty Four and Paise Forty Four only)	08.06.2021	Property 1: 18.09.2023 Property 2: 18.09.2023	Property 1: Rs. 77,50,000.00 (Rupees Seventy Seven Lakhs Fifty Thousand Only) Property 2: Rs. 58,50,000.00 (Rupees Fifty Eight Lakhs Fifty Thousand Only)	Property 1: Rs. 25,000/- Property 2: Rs. 25,000/-	Property 1: Rs. 7,75,000.00 (Rupees Seven Lakhs Seventy Five Thousand Only) Property 2: Rs. 5,85,000.00 (Rupees Five Lakhs Eighty Five Thousand Only)	19.06.2024 11.00 A.M. to 01:00 P.M. (for both Property 1 and Property 2)

Account No.: 055505010221, Name of the Beneficiary: Omkara PS 30/2021-22 Trust, Bank Name: ICICI Bank, Branch: Bandra (E) Mumbai, IFSC Code: ICIC0000555

Last date and time for submission of bid letter of participation/KYC Document/Proof of EMD : 05.07.2024 till 5:30 pm (for both Property 1 and Property 2)

Date of E-Auction & Time: 08.07.2024 12:00 pm to 02:00 pm (for Property 1); 08.07.2024 03:00 pm to 05:00 pm (for Property 2)

TERMS & CONDITION OF THE AUCTION: For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link provided in Secured Creditor's (OARPL) website i.e. <http://omkaraarc.com/auction.php> or website of service provider i.e. <http://www.bankeaction.com>.

STATUTORY NOTICE FOR SALE UNDER Rule 8(6) r/w 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

This notice is also a mandatory notice of not less than 30 (Thirty) days to the Borrower(s) of the above loan account under Rule 8(6) r/w 9(1), of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 and provisions of Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, informing them about holding of auction/sale through e-auction on the above referred date and time.

Date: 31.05.2024
Place: Patna, Bihar

Sd/- Authorized Officer, Omkara Assets Reconstruction Pvt Ltd. (Acting in its capacity as a Trustee of Omkara PS 30/2021-22 Trust)

